



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष 1937 (श0)
(सं0 पटना 51) पटना, सोमवार, 18 जनवरी 2016

सं0 3ए-9-विविध-15/2014—263/वि०
वित्त विभाग

संकल्प

13 जनवरी 2016

विषय :—गैर-व्यवसायिक भत्ता (N.P.A.) विचारण समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।
राज्य के विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत चिकित्सकों/दंत चिकित्सकों/आयुष पद्धति के चिकित्सकों/पशु तथा इनसे सम्बन्धित महाविद्यालयों में कार्यरत सभी विद्या के शिक्षकों को गैर-व्यवसायिक भत्ता प्रदान करने की उपादेयता/व्यवहारिकता पर विचार करने के लिए गैर-व्यवसायिक भत्ता विचारण समिति का गठन संकल्प संख्या-7012, दिनांक 09/07/2013 द्वारा किया गया।

2. समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई कि राज्य के विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत चिकित्सकों/दंत चिकित्सकों/आयुष पद्धति के चिकित्सकों/पशु चिकित्सकों को गैर-व्यवसायिक भत्ता अनुमान्य नहीं किया जाए। समिति की उक्त अनुशंसा पर सरकार के समक्ष निर्णय विचाराधीन था।

3. सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि— राज्य के विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत चिकित्सकों/दंत चिकित्सकों/आयुष पद्धति के चिकित्सकों/पशु चिकित्सकों को गैर-व्यवसायिक भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 51-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>